



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1569]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 2007/अग्रहायण 27, 1929

No. 1569]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 18, 2007/AGRAHAYANA 27, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2007

का.आ. 2161(अ).—अतः मैं, कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड, जो कर्नाटक राज्य का पूर्णतः स्वामित्व वाला राज्य औद्योगिक संवर्धन संगठन है, ने कर्नाटक राज्य के हासन में भेषज के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदुपराध आर्थिक जोन अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उक्त हासन क्षेत्र भेषज के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (10) के अंतर्गत दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 तथा 14 सितम्बर, 2007 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है।

अतः अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा कर्नाटक राज्य के हासन में निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :

तालिका

क्र. सं.	गांव का नाम	सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कौशिका	325	1.214
2.		327	2.519
3.		328	1.052
4.		328	23.179
5.		329	23.654
6.		329	26.699
7.		330	1.042
8.		331	0.577
9.		332	1.214
10.	चिक्काबासवनहल्ली	64	7.517
11.		102	0.303
12.		105	0.303
13.		122	1.012
14.		123	0.172
15.		125	1.619
16.		126	1.518
17.		127	1.821
18.		128	1.214
19.		129	0.435
20.		130	0.708
21.		131	1.598
22.		132	1.619
23.		133	0.809

(1)	(2)	(3)	(4)
24.		134	1.538
25.		135	1.791
26.	डोड्डाबासवनहल्ली	87	4.168
	कुल	109.295	हेक्टेयर

[एफ. 2/386/2006-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2007

S.O. 2161(E).—Whereas M/s. Karnataka Industrial Area Development Board, a fully owned State Industrial Promotion Organisation in the State of Karnataka, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for pharmaceuticals at Hassan in the State of Karnataka;

And whereas the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the Act for development, operation and maintenance of the sector specific Special Economic Zone for pharmaceuticals at the said Hassan Area on 26th October, 2006 and 14th September, 2007;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zone Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the following area at Hassan in the State of Karnataka, comprising of the Survey numbers and the area given below in the Table, as a Special Economic Zone, namely:—

TABLE			
S1. No.	Name of the Village	Survey Number	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kaushika	325	1.214
2.		327	2.519
3.		328	1.052
4.		328	23.179
5.		329	23.654
6.		329	26.699
7.		330	1.042
8.		331	0.577
9.		332	1.214
10.	Chikkabasavanahalli	64	7.517
11.		102	0.303
12.		105	0.303
13.		122	1.012
14.		123	0.172
15.		125	1.619
16.		126	1.518
17.		127	1.821
18.		128	1.214
19.		129	0.435
20.		130	0.708
21.		131	1.598
22.		132	1.619
23.		133	0.809
24.		134	1.538
25.		135	1.791
26.	Doddabasavanahalli	87	4.168
		TOTAL	109.295
			hectares

[F. 2/386/2006-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.